



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940

No. 334]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सं. एन-12/13/1/2016-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु, कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्नलिखित मसौदा विनियम को, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप धारा(1) द्वारा यथापेक्षित, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियम पर, भारत का राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

1. उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।
2. आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, श्री एस.के. गर्ग, बीमा आयुक्त(यो.एवं वि.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 (ई-मेल [dir-pndhq@esic.in](mailto:dir-pndhq@esic.in)) को संबोधित किए जाएं

### मसौदा विनियम

1. इन विनियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियमावली, 1950 में विनियम 15, 15-क तथा 15-ख के पश्चात् उप-विनियम जोड़े जाएंगे

**विनियम १५ के पश्चात् जोड़े जाने वाला उप-विनियम**

- 1) व्यक्ति, किसी भी हितलाभ को प्राप्त करने के लिए अपने तथा धारा 2(11) में यथा परिभाषित अपने परिवार के सदस्यों की आधार संख्या बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश करने पर जमा कराएगा तथापि, तात्कालिक आवश्यकता में, प्राधिकारी जिसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, द्वारा शर्त में छूट दी जा सकती है.
- 2) नियोक्ता, बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार की आधार संख्या (एँ) क रा बी निगम ऑनलाइन पोर्टल पर लिंक करेगा ताकि बीमाकृत व्यक्तियों तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा हितलाभ सहित हितलाभ सरलता से प्राप्त हो सकें.

**विनियम 15-क के पश्चात् जोड़े जाने वाला उप-नियम**

- 1) बीमाकृत व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की आधार संख्या अपने नियोक्ता को प्रस्तुत करेंगे.

**विनियम 15-क के पश्चात् जोड़े जाने वाला उप-नियम**

- 1) बीमाकृत व्यक्ति परिवार के ब्योरे में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में अपने परिवार के सदस्यों की आधार संख्या जमा कराएगा.

एस. के. गर्ग, बीमा आयुक्त ( यो व वि)

[विज्ञापन-III/4/असा./209/18]

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2018

**No. N-12/13/1/2016-P&D** – The following draft regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 which the Employees State Insurance Corporation purposes to make in exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by Sub- Section (1) of the said Section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of Thirty days from the date on which the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public:-

1. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft regulations within the period specified above, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation.
2. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S.K.Garg, Insurance Commissioner-(P & D), Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002 or through e-mail to e-mail ID "dir-pndhq@esic.in"

**DRAFT REGULATIONS**

1. These Regulations may be called Employees' State Insurance (General) Amendment Regulations, 2018.
2. In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, sub-regulations will be added after Regulations 15, 15-A and 15-B.

**Sub regulation to be added after regulation 15**

- 1) A person shall submit Aadhar Number on entering into insurable employment for it and its family members as defined in section 2(11) under the Act, for availing any benefit however, in exigencies, the condition may be relaxed by the authority so authorized for.
- 2) The employer shall link the Aadhar Number (s) of the insured persons and their family members on the ESIC online portal to facilitate insured person and their family members for drawl of benefits including Medical Benefit.

---

**Sub regulation to be added after regulation 15-A**

- 1) The insured persons shall submit the Aadhar Number of their family members to their employers.

**Sub regulation to be added after regulation 15-B**

- 1) The Insured person shall submit the Aadhar Number of their family members in case of any change in family particulars.

S.K. GARG, Insurance Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./209/18]